



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19]
No. 19]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 1981/पौष 23, 1902
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 1981/PAUSA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1981

का०सा० 22(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या 36(अ), तारीख 24 जनवरी, 1978 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 5248.00 एकड़ (लगभग) या 2123.76 हैक्टर (लगभग) भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बेघन करने, उनकी खुदाई करने और उन्हें तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें छोड़कर ले जाने के लिए अधिकार अर्जित करने के अपने आग्रह की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और उक्त रिपोर्ट पर विचार करने तथा उड़ीसा राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 5248.00 एकड़ (लगभग) या 2123.76 हैक्टर (लगभग) भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बेघन करने, उनकी खुदाई करने और उन्हें तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें छोड़कर ले जाने के अधिकार अर्जित किये जाने चाहिए,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 5248.00 एकड़ (लगभग) या 2123.76 हैक्टर (लगभग) भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बेघन करने, उनकी खुदाई करने और उन्हें तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और उन्हें छोड़कर ले जाने के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के नक्शे का निरीक्षण कमिश्नर, सम्मलपुर (उड़ीसा के कार्यालय में या कोयंबा नियंत्रक के 1, कौन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित कार्यालय में या वेस्टर्न कोलकील्डस लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), बिसेम हाउस, टेम्पुल रोड, भागपुर (मद्रास) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

ब्लाक संख्या 2

इन्धवी कोलफील्ड (उड़ीसा)

क्रा सं० सी-1(ई) III/डी प्रार/153.0778, तारीख 6-4-78 (जिसमें वे भूमियां दक्षिण की गई हैं, जहां खनिजों के खनन, खदान, वेधन करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें होकर से जाने के अधिकार अर्जित किए गए हैं)।

खनन अधिकार

क्रम सं०	ग्राम का नाम	ग्राम की संख्या	थाना	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ों में)		योग	टिप्पणियां
					राजस्व भूमि	सरकारी भूमि		
1.	गम्हूडेरा	7	बजरानगर	सम्मलपुर	11 20	57.86	69.06	भाग
2.	जमकाती	8	"	"	69 75	59.44	129.19	भाग
3.	जरबाग	9	"	"	685.42	1687.41	2372.83	भाग
4.	खैरकुनी	16	लखनपुर	"	329 09	213.07	542.16	भाग
5.	टिगिसमल	17	"	"	50.42	130.93	181.35	भाग
6.	बंझीपाली	18	"	"	58.36	34.54	92.90	पूर्ण
7.	खटमहाल	19	"	"	46.11	11.85	57.96	भाग
8.	उप्रा	22	"	"	143.09	159.85	302.94	भाग
9.	छर्पा	23	"	"	54 94	467.78	522.72	भाग
10.	बन्दबहाल	45	"	"	शून्य	21.97	21.97	भाग
11.	दलीपाली	46	"	"	321 78	352.56	674 36	पूर्ण
12.	कीरारामा	47	"	"	41.21	239.35	280.56	भाग
कुल क्षेत्रफल					1811.37	3436.63	5248.00	
					एकड़ (लगभग) या		2123.76	हैक्टेयर (लगभग)

ग्राम गम्हूडेरा में अर्जित किए गए प्लॉटों की संख्या :

382 भाग, 384 भाग, 385 भाग, 390 भाग, 391 भाग, 394 भाग, 395 भाग, 396, 397 भाग, 398 से 400, 401 भाग, 727 भाग, 779 भाग और 780 भाग।

ग्राम जमकाती में अर्जित किए गए प्लॉटों की संख्या :

414 भाग, 434 भाग, 435 भाग, 437, 438 भाग, 439 भाग, 440 से 452, 453 भाग, 454 भाग, 457 भाग, 462 भाग, 672 से 680, 681 भाग, 682 से 691, 692 भाग, 693 से 695, 696 भाग, 699 भाग, 706 भाग, 707 भाग, 708 भाग, 709, 710 भाग, 775 से 780, 781 भाग और 782 भाग।

ग्राम जरबाग में अर्जित किए गए प्लॉटों की संख्या :

27 भाग, 42 भाग, 46 भाग, 47 भाग, 49 भाग, 50 भाग, 51, 52 भाग, 53 भाग, 54 से 104, 105 भाग, 106 भाग, 107 भाग, 108 भाग, 129 भाग, 133 भाग, 134 से 294, 295 भाग, 296 भाग, 297 से 535, 536 भाग, 537 से 582, 583 भाग, 584 से 588, 589 भाग, 590 भाग, 611 भाग, 619 भाग, 622 भाग, 630 भाग, 631 भाग, 632, 633, 634 भाग, 635 भाग, 636 से 808, 809 भाग, 810 से 867, 869 भाग, 870, 871, 872 भाग, 876 भाग, 876 से 880, 881 भाग, 882 से 899, 900 भाग, 910 भाग, 911 से 913, 914 भाग, 915 भाग, 916 भाग, 932 से 934, 937 से 944, 950 से 960, 961 भाग, 962 से 977, 979 और 983।

ग्राम खैरकुनी में अर्जित किए गए प्लॉटों की संख्या :

218 भाग, 219 भाग, 220 भाग, 223 भाग, 224 भाग, 227 भाग, 228 भाग, 229 से 231, 232 भाग, 233 भाग, 234 भाग, 284 भाग, 289 भाग, 290 भाग, 291, 292, 293 भाग, 295 भाग, 296 भाग, 297 से 321, 322 भाग, 323 भाग, 325 भाग, 496 भाग, 497 भाग, 498 भाग, 499 से 581, 582 भाग, 683 से 770, 772, 809 भाग, 810 भाग, 814 और 828 से 833।

ग्राम टिगिसमल में अर्जित किए गए प्लॉटों की संख्या

84 भाग, 564 भाग, 565 भाग, 615 भाग, 679 भाग, 680 भाग, 681 से 687, 688 भाग, 689 भाग, 690 भाग, 691 भाग, 692 भाग, 693 भाग, 694 भाग, 695 भाग, 696 से 751, 770 से 772 और 774 भाग।

ग्राम बंझीपाली में अर्जित किए गए प्लॉटों की संख्या

1 से 117 (समस्त ग्राम) ।

ग्राम खटमहाल में अजित किए गए प्लाटों की संख्या

32 भाग, 34 भाग, 35 भाग, 36 भाग, 46 भाग, 47 भाग, 48 से 55 56 भाग, 57 भाग, 63 भाग, 63 भाग 66 से 83 84 भाग, 95 भाग, 86 से 106, 107 भाग, 108 भाग 109 से 114, 116 भाग 117, 120 124 से 126 और 127 भाग ।

ग्राम उब्रा में अजित किए गए प्लाटों की संख्या

1 से 157, 158 भाग, 159, 171 भाग, 172 भाग, 183 भाग, 174 से 177, 178 भाग, 179 भाग, 180, 181, 182 भाग, 183 भाग, 184 भाग, 185, 186, 211 भाग, 212 भाग, 291 भाग, 292 भाग, 293 भाग, 295 भाग, 296 से 312, 313 भाग, 314 भाग, 315 से 318, 319 भाग, 320, 321, 322 भाग 323 भाग, 324, 325 भाग, 326 भाग 329 भाग, 338 भाग, 339 भाग, 373 भाग, 929, 930 भाग, 932 से 944, 945 भाग, 951, 952, 953 भाग, और 1004 ।

ग्राम छर्ला में अजित किए गए प्लाटों की संख्या

1 से 10, 11 भाग, 12 से 14, 16 से 21, 22 भाग, 23, 24, 25 भाग, 29 भाग, 30 भाग 31, 32 भाग, 45 भाग, 48 भाग, 49 से 64, 65 भाग, 66, 67 भाग, 68 भाग, 69 भाग, 70 भाग, 71, 72 भाग, 78 भाग, 435, 436 भाग, 437 भाग, 440 भाग, 441, 442, 443 भाग, 445, 449 भाग, 450 से 455 और 456 भाग ।

ग्राम बन्दबहाल में अजित किए गए प्लाटों की संख्या

1 से 3 और 4 भाग ।

ग्राम दलीपानी में अजित किए गए प्लाटों की संख्या

1 से 794 (समस्त ग्राम) ।

ग्राम कीरागम में अजित किए गए प्लाटों की संख्या

1 से 15, 16 भाग, 17 से 27, 28 भाग, 34 भाग, 35, 36 भाग, 37 भाग, 39 भाग, 10 भाग, 45 भाग 46 से 56, 57 भाग, 58 भाग, 60 भाग, 67 भाग, 74 भाग, 830, 832 से 838, 839 भाग और 840 ।

सीमा वर्णन

क-ख रेखा ग्राम जमकानी की प्लाट सं० 436, 431, 781, 438 439, 414, 782, 453, 454, 681, 457, 462, 692, 696, 699, 706, 707, 708, 710 से और ग्राम जरबागा की प्लाट सं० 536, 589, 590, 583, 635, 611, 634, 961, 619, 622, 631 630, 915 से जाती है और प्लाट सं० 916 से बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग रेखा ग्राम जरबागा की प्लाट सं० 916, 915, 914, 910 से जाती है और प्लाट सं० 900 से बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग-घ रेखा ग्राम जरबागा की प्लाट सं० 900, 875, 881, 869, 872, 809 से और ग्राम की रागम की प्लाट सं० 60, 74, 68, 67, 46, 67, 40, 39, 37, 36, 839 34, 28, 16 और फिर ग्राम बन्दबहाल की प्लाट सं० 4 से जाती है तथा बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ-ङ रेखा ग्राम बन्दबहाल की प्लाट सं० 4 से और फिर ग्राम छर्ला की प्लाट सं० 437, 443, 25, 29, 30, 32, 22, 436, 48, 45 65 से जाती है तथा प्लाट सं० 445 से बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ-च रेखा ग्राम छर्ला की प्लाट सं० 445, 65, 67, 68, 156 70 69, 72, 78, 440, 449, 11 से और ग्राम उब्रा की प्लाट सं० 930, 953, 322, 339, 338 328, 325, 326, 319, 373, 314, 313, 295, 293, 292, 291, 184, 183, 182, 179, 211, 212, 178 173 172 171, 158, 945 से और फिर ग्राम खटमहाल की प्लाट संख्या 107 108, 85, 127, 84, 63, 65, 56 57, 47, 46 35 से जाती है तथा प्लाट सं० 36 से बिन्दु "च" पर मिलती है ।

च-ज रेखा ग्राम खटमहाल की प्लाट सं० 36, 35 34, 116, 32 से और ग्राम टिंगिमल की प्लाट सं० 84, 564, 774, 565, 615, 693, 696, 694 692, 691 690 689 688 680, 679 से और ग्राम खैरकुनी की प्लाट संख्या 496 498, 497, 325, 582, 323 322, 290, 289 293, 295 296, 284, 232, 234, 233, 809, 810 228 227, 224, 223, 220, 219 और 218 से तथा ग्राम जरबागा की प्लाट सं० 296 129, 295, 108, 107, 106, 105, 12, 53, 52, 46, 47, 49, 50, 27 से और फिर ग्राम सखेदेरा की प्लाट सं० 727, 780, 779, 401 397, 395, 394, 385, 391, 390, 384, 382 से जाती है और आरम्भक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 1981

S. O. 22 (E):— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 36 (E) dated the 24th January, 1978 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 5248.00 acres (approximately) or 2123.76 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification:

And whereas the Competent Authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the said report and after consulting the Government of Orissa, is satisfied that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 5248.00 acres (approximately) or 2123.76 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

should be acquired.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 5248.00 acres (approximately) or 2123.76 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto:

are hereby acquired.

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Sambalpur (Orissa) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Bisesar House, Temple Road, Nagpur (Maharashtra).

SCHEDULE

BLOCK NO. 2

IB-RIVER COALFIELDS (ORISSA)

DRG. No. C-1 (E) III/DR/153.0778 dt. 6-4-78.

(Showing the lands where rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals acquired.)

MINING RIGHTS

Sl. No.	Name of village	Village No.	Thana	District	Area in acres		Total	Remarks
					Revenue land	State Government land		
1.	Gamhadera	7	Brajrajnagar	Sambalpur	11.20	57.86	69.06	Part
2.	Jamkani	8	"	"	67.75	59.44	129.19	"
3.	Jarabaga	9	"	"	685.42	1687.41	2372.83	"
4.	Khairkuni	16	Lakhanpur	"	329.09	213.07	542.16	"
5.	Tingismal	17	"	"	50.42	130.93	181.35	"
6.	Banjhipali	18	"	"	58.36	34.54	72.90	Full
7.	Khatmahal	19	"	"	46.11	11.85	57.96	Part
8.	Ubra	22	"	"	143.09	159.85	302.94	"
7.	Chharla	23	"	"	54.94	467.78	552.72	"
10.	Bandbahal	45	"	"	Nil	21.97	21.97	"
11.	Darlipali	46	"	"	321.78	352.58	764.36	Full
12.	Kirarama	47	"	"	41.21	239.35	280.56	Part
Total Area					1811.37	3436.63	5248.00	
					acres (approximately)		OR	
					2123.76		hectares (approximately)	

Plot numbers acquired in village Gamhadera:

382P, 384P, 385P, 390P, 391P, 394P, 395P, 396, 397P, 398 to 400, 401P, 727P, 779P and 780P.

Plot numbers acquired in village Jamkani:

414P, 434P, 435P, 437, 438P, 439P, 440 to 452, 453P, 454P, 457P, 462P, 672 to 680, 681P, 682 to 691, 692P, 693 to 695, 696P, 699P, 706P, 707P, 708P, 709, 710P, 775 to 780, 781P and 782P.

Plot numbers acquired in village Jarabaga:

27P, 42P, 46P, 47P, 49P, 50P, 51, 52P, 53P, 54 to 104, 105P, 106P, 107P, 108P, 129P, 133P, 134 to 294, 295P, 296P, 297 to 535, 536P, 537 to 582, 583P, 584 to 588, 589P, 590P, 611P, 619, 622P, 630P, 631P, 632, 633, 634P, 635P, 636 to 808, 809P, 810 to 868, 869P, 870, 871, 872P, 875P, 876 to 880, 881P, 882, 890P, 900P, 910P, 911 to 913, 914P, 915P, 916P, 932 to 934, 937 to 944, 950 to 960, 961P, 962 to 977, 977 and 983.

Plot numbers acquired in village Khairkuni:

218P, 219P, 220P, 223P, 224P, 227P, 228P, 229 to 231, 232P, 233P, 234P, 284P, 289P, 290P, 291, 292, 293P, 295P, 296P, 297 to 321, 322P, 323P, 325P, 496P, 497P, 598P, 499 to 581, 582P, 583, to 770, 772, 809P, 810P, 814 and 828 to 833.

Plot numbers acquired in village Tingimal:

84P, 564P, 565P, 615P, 679P, 680P, 681 to 687, 688P, 689P, 690P, 691P, 692P, 693P, 694P, 695P, 696 to 751, 770 to 772 and 774P.

Plot numbers acquired in village Banjhipali:

1 to 112 (full village).

Plot numbers acquired in village Khatmahal:

32P, 34P, 35P, 36P, 46P, 47P, 48 to 55, 56P, 57P, 63P, 65P, 66 to 83, 84P, 85P, 86 to 106, 107P, 108P, 109 to 114, 116P, 117, 120, 124 to 126 and 127P.

Plot numbers acquired in village Ubra:

1 to 157, 158P, 159, 171P, 172P, 173P, 174 to 177, 178P, 179P, 180, 181, 182P, 183P, 184P, 185P, 186, 211P, 212P, 291P, 292P, 293P, 295P, 296 to 312, 313, 314P, 315 to 318, 319P, 320, 321, 322P, 323P, 324, 325P, 326P, 328P, 338P, 339P, 373P, 929, 930P, 932 to 944, 945P, 951, 952, 953P, and 1004.

Plot numbers acquired in village Chharla:

1 to 10, 11P, 12 to 14, 16 to 21, 22P, 23, 24, 25P, 29P, 30P, 31, 32P, 45P, 43P, 49 to 64, 65P, 66, 67P, 68P, 69P, 70P, 71, 72P, 78P, 435, 436, 437P, 440P, 441, 442, 443P, 445P, 449P, 450 to 455 and 456P.

Plot numbers acquired in village Bandbahal:

1 to 3 and 4P.

Plot numbers acquired in village Darlipali:

1 to 794 (full village).

Plot numbers acquired in village Kirarama:

1 to 15, 16P, 17 to 27, 28P, 34P, 35, 36P, 37P, 39P, 40P, 45P, 45 to 56, 57P, 58P, 60P, 67P, 74P, 830, 832 to 838, 839P, and 840.

BOUNDARY DESCRIPTION:

- A—B Line passes through village Jamkani in plot nos. 435, 434, 781, 438, 439, 414, 782, 453, 454, 681, 457, 462, 692, 696, 699, 706, 707, 708, 710 and through village Jarabaga in plot nos. 536, 589, 590, 583, 635, 611, 634, 961, 619, 622, 631, 630, 915 and meets in plot no. 916 at point "B".
- B—C Line passes through village Jarabaga in plot nos. 916, 915, 914, 910 and meets in plot No. 900 at point "C".
- C—D Line passes through village Jarabaga in plot nos. 900, 875, 881, 869, 872, 809 and through village Kirarama in plot nos. 60, 74, 58, 57, 45, 67, 40, 37, 39, 36, 839, 34, 28, 16 and then through village Bandbahal in plot nos. 4 and meets at point "D".
- D—E Line passes through village Bandbahal in plot no. 4 and then through village Chharla in plot nos. 437, 443, 25, 29, 30, 32, 22, 436, 48, 45, 65 and meets in plot no. 445 at point "E".
- E—F Line passes through village Chharla in plot nos. 445, 65, 67, 68, 456, 70, 69, 72, 78, 440, 449, 11 and through village Ubra in plot nos. 930, 322, 323, 953, 339, 338, 328, 325, 326, 319, 373, 314, 313, 295, 293, 292, 291, 184, 183, 182, 179, 211, 212, 178, 173, 172, 171, 158, 945 and then through village Khatmahal in plot nos. 107, 108, 85, 127, 84, 63, 65, 56, 57, 47, 46, 35 and meets in plot no. 36 at point "F".
- F—A Line passes through village Khatmahal in plot nos. 36, 35, 34, 116, 32 and through village Tingimal in plot nos. 84, 564, 774, 565, 615, 693, 695, 694, 692, 691, 690, 689, 688, 680, 679 and through village Khairkuni in plot nos. 496, 498, 497, 325, 582, 323, 322, 290, 289, 293, 295, 296, 284, 232, 234, 233, 809, 810, 228, 227, 224, 223, 220, 219 and 218 and through village Jarabaga in plot nos. 296, 129, 295, 133, 108, 107, 106, 105, 42, 53, 52, 46, 47, 49, 50, 27 and then through village Gamhadera in plot nos. 727, 780, 779, 401, 397, 395, 394, 385, 391, 390, 384, 382 and meets at the starting point "A".

[No. 19 (73)/77-CL]

P. K. LAHIRI, Jt. Secy

